

विद्या - भवन बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

वर्ग - द्वितीय

विषय - हिंदी

एन.सी.ई.आर.टी पर आधारित

दिनांक - 23 - 08- 2021

ईमानदारी का फल

सुप्रभात बच्चों ,

आज की कक्षा में आपको अभ्यास कार्य करना है जो इस प्रकार है-

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (लघु उत्तरीय प्रश्न) :

(क) लकड़हारा अपना गुजारा कैसे चलाता था?

उत्तर = लकड़हारा अपना गुजारा लकड़ी काटकर चलाता था।

(ख) लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में कैसे गिर गई?

उत्तर = लकड़हारा भारी बोझ के कारण लड़खड़ा गया और कुल्हाड़ी नदी में गिर गई।

(ग) लकड़हारे ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से क्यों इंकार कर दिया?

उत्तर = क्योंकि वह लकड़हारे की कुल्हाड़ी नहीं थी। इसलिए उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया।

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न) :

(क) लकड़हारा दुखी क्यों हो गया?

उत्तर = क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई।

(ख) वह अपनी कुल्हाड़ी देखकर खुशी से क्यों उछल पड़ा?
उत्तर = क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी थी इसलिए वह खुशी से उछल पड़ा।

(ग) जलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियां क्यों दे दी।
उत्तर = क्योंकि जलपरी लकड़हारे की इमानदारी से खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियां दे दी।

3. पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? सही क्रम संख्या लिखिए:

4. लकड़हारे ने चांदी की कुल्हाड़ी लेने से इनकार कर दिया।

5. लकड़हारा खुशी से उछल पड़ा।

1. लकड़हारा नदी के पास से गुजरा।

2. नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए लकड़हारे के पास पैसे नहीं थे।

3. जलपरी ने लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देनी चाही।

4. दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए:

कुल्हाड़ी = कुल्हाड़ियां

लकड़ी = लकड़ियां

नदी = नदियां

खुशी = खुशियां

परी = परियां

लड़की = लड़कियां

गृहकार्य

दिए, गए अध्ययन सामग्री को लिखे तथा याद करें-

ज्योति